




भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 334]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 5, 2002/चैत्र 15, 1924

No. 334]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 5, 2002/CHAITRA 15, 1924

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2002

का.आ. 390(अ).—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मध्य प्रदेश राज्य में दहेज-वेमार-विजयपुर पाइपलाइन परियोजना के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गैस आर्थोरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है और जिसमें पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राजपत्र में यथाप्रकाशित इस अधिसूचना की प्रति साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के संबंध में, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन सक्षम प्राधिकारी, गैस आर्थोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल कम्पलैक्स, जिला-गुना, विजयपुर-473112 को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

दहेज-वेमार-विजयपुर पाइपलाइन परियोजना

ग्राम का नाम - मुलथान तहसील - बड़गाँव जिला - धरि राज्य- मध्यप्रदेश

अनुसूची

अनुक्रमिक	खसरा नम्बर	उपयोग अधिकार - अर्जन का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	305	0.03
2	302	0.16
3	301	0.13
4	296	0.03
5	300	0.09
6	299	0.05
7	318	0.05
8	317	0.05
9	315	0.02
10	319	0.23
11	290	0.03
12	289/3	0.06
13	289/5	0.05
14	260/2	0.01
15	260/3	0.04
16	260/4	0.08
17	260/5	0.12
18	288/3	0.02
19	288/8	0.05
20	288/2	0.02
21	288/5	0.05
22	288/4	0.04
23	288/7	0.02
24	288/6	0.08
25	287	0.06
26	284	0.02
27	286	0.14
28	281/1	0.08
29	281/2	0.05
30	559/1	0.31
31	559/2	0.15
32	563/1	0.12
33	562	0.22
34	545/1	0.63
35	569/16	0.05
36	569/24	0.12
37	569/10-11	0.42
38	569/9	0.13
39	569/1	0.98

ग्राम गुलथान, ताहसील बलनावर, जिला - थार, राज्य - महाराष्ट्र

आवृत्ति क्रमांक	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
40	1287/1/1	0.22
41	1287/2	0.22
42	1287/4	0.19
43	1285	0.35
44	1281	0.08
45	1280	0.09
46	1278/1	0.39
47	1061/1	0.03
48	1057	0.09
49	1058	0.04
50	1055	0.08
51	1053	0.07
52	1054	0.01
53	1051	0.07
54	1050	0.02
55	1037	0.09
56	1046	0.02
57	1039	0.07
58	1023/1	0.10,
59	1019	0.03
60	1024	0.03
61	1025	0.05
62	1038	0.03
63	1014	0.03
64	1015	0.05
65	1016	0.03
66	1017	0.01
67	982/1	0.25
68	904/1	0.01
69	904/2	0.03
70	903/3	0.01
71	898	0.03
72	2321/1	0.02
73	2344	0.01
74	2343	0.17
75	2342	0.02
76	2341	0.01
77	285	0.04
78	567	0.08
79	1022	0.04
80	1023/1-2	0.10,
81	1282	0.04
82	2449	0.01

कुल -

8.35

ग्राम का नाम—तिलमारा तहसील—बदनावर जिला—थार राज्य—मध्यप्रदेश

अनुसूची

अनुक्रमांक	खसरा नम्बर	उपयोग अधिकार - अर्जन का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	3191	0.12
2	3190	0.03
3	3192/1/2.	0.23
4	3192/2	0.10,
5	3193/1	0.01
6	3193/2	0.19
7	3194/1	0.18
8	3194/1/2.	0.18
9	3197/2	0.04
10	3199/1/2.	0.04
11	3199/1/1.	0.15
12	3200	0.04
13	3201	0.20,
14	3202	0.01
15	3179/1	0.11
16	1185	0.19
17	1186	0.12
18	1190	0.24
19	1189	0.13
20	3151	0.13
21	3172	0.10,
22	3171	0.21
23	3124	0.08
24	3126	0.05
25	3129	0.11
26	3127	0.09
27	3116/1-2,	0.11
28	3115/1-3,	0.03
29	3114/1-3,	0.04
30	3072	0.05
31	3039	0.06
32	3040	0.08
33	3041	0.06
34	3042	0.09
35	3045	0.04
36	3048	0.06

ग्राम तिलमारा तहसील बदगावर जिला - धार राज्य मध्यप्रदेश।

अनुक्रमांक	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल हेक्टेयर में
37	3047	0.11
38	3233/3047	0.08
39	3049	0.04
40	3030	0.06
41	3028	0.15
42	3034	0.15
43	3021/1	0.11
44	3021/2	0.12
45	3023/1	0.07
46	3023/2	0.07
47	3024	0.05
48	3192/1/1,	0.25
49	3199/2	0.05
50	3152/1	0.11
51	3050	0.01

कुल =

4.73

ग्राम का नाम - सन्वला तहसील - बदगावर जिला - धार राज्य- मध्यप्रदेश

अनुक्रमांक	खसरा नम्बर	उपयोग अधिकार - अर्जन का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	92/1	0.84
2	93/1-2	0.01
3	107	0.01
4	126/1	0.45
5	91/1/1	0.19
6	91/1/2	0.29
7	91/1/3	0.81
8	241/1	0.28
9	595/1	0.24
10	591/1	0.33
11	589/2	0.06
12	590	0.11
13	584	0.14
14	585	0.20,
15	559/1/1	0.31
16	575/1-2	0.14
17	574/1-2	0.11
18	573	0.20,
19	572	0.03
20	571	0.29
21	570	0.26
22	569	0.05
23	568/1-3	0.12
24	566/1-3	0.07
25	709/1/1	0.35
26	556/1	0.41
27	751/1-2	0.05
28	798/1	0.04
29	770	0.09
30	769	0.10,
31	776	0.07
32	777	0.05
33	780	0.32
34	961	0.01
35	949	0.03
36	960	0.05
37	959	0.05
38	962	0.08
39	956/1	0.08

ग्राम - रुन्धला, तहसील - बटनानर, जिला - थार, राज्य - मध्यप्रदेश

अनुक्रमांक	खंसा नम्बर	क्षेत्रफल हेक्टर में
40	983	0.08
41	981/2	0.02
42	982	0.06
43	999	0.04
44	984	0.10,
45	986	0.03
46	995	0.04
47	994/1	0.10,
48	1040	0.12
49	1036/2	0.09
50	1047/1	0.13
51	1047/2	0.14
52	1056/1-2	0.02
53	1058/1-2	0.07
54	1057/1-2	0.15
55	1064/1	0.12
56	1064/2	0.06
57	1145	0.14
58	1146	0.05
59	1144/1	0.08
60	1144/2	0.02
61	1148	0.07
62	1153	0.08
63	1151/2	0.29
64	1303/1-2	0.14
65	1037	0.01
66	1038	0.01
67	1039	0.01
68	985	0.01
69	1041/1	0.01
70	1059	0.01
71	1048	0.01
कुल -		9.63

ग्राम का नाम - टिटिपाड़ा तहसील - बरनाबर जिला - धार राज्य- मध्यप्रदेश

अनुक्रमांक	खसरा नम्बर	उपयोग अधिकार - अर्जन का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	258	0.16
2	248/1	0.49
3	248/2	0.01
4	248/3	0.06
5	220	0.02
6	170	0.11
7	174	0.18
8	218	0.09
9	176	0.07
10	178	0.11
11	185	0.23
12	186	0.04
13	187	0.01
14	183	0.02
15	184	0.05
16	145/2	0.10,
17	145/3	0.07
18	144/1-3	0.09
19	140/1/1] 140/2/2]	0.09
20	140/2	0.14
21	140/3	0.02
22	141/1	0.03
23	135	0.02
24	302	0.06
25	303	0.10,
26	299	0.01
27	304/1-2	0.01
28	306/2	0.03
29	305/1	0.03
30	305/2	0.11
31	295/2	0.03
32	285	0.01
33	307	0.05
34	308/1-2	0.02
35	128	0.12
36	125/1	0.07
37	126/1-2	0.02
38	100	0.02

ग्राम- तिहियाड़ा तहसील बल्लनावर, जिला - ग्धार, राज्य - स.प्र

अनुक्रमांक	खसरा सं.	क्षेत्रफल हेक्टर में
39	27	0.05
40	29/1-5	0.05
41	39	0.06
42	38	0.05
43	37	0.04
44	36	0.04
45	41/1-3	0.05
46	42/1-2	0.02
47	44	0.05
48	45	0.02
49	51	0.13
50	50	0.02
51	79	0.10,
52	80	0.10,
53	81/1-2	0.08
54	81/384	0.02
55	82	0.03
56	87	0.14
57	86	0.08
58	91	0.05
59	48	0.17
60	92	0.07
61	96	0.01
62	93	0.03
63	94	0.28
64	95	0.08
कुल -		4.72

ग्राम का नाम - बखतपुरा तहसील - बखनावर जिला - धार राज्य- मध्यप्रदेश

अनुक्रमांक	खसरा नम्बर	उपयोग अधिकार - अर्जन का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	72	0.01
2	68	0.01
3	69	0.13
4	61/2	0.11
5	61/1	0.13
6	56	0.24
7	57	0.01
8	48/1-9	0.35
9	237/1	0.16
10	239	0.14
11	240	0.06
12	241	0.01
13	246	0.29
14	247	0.04
15	245	0.01
16	248	0.06
17	249	0.10,
18	251	0.04
19	293/1/2	0.03
20	293/1/1	0.04
21	291	0.12
22	292	0.06
23	294	0.06
24	477/1-2	0.13
25	476	0.04
26	475	0.21
27	472	0.13
28	484	0.18
29	485	0.05
30	483	0.02
31	491	0.03
32	490	0.29
33	492/1-3	0.19

ग्राम कल नाम - दोमिया तहसील - बलनावर जिला - चार राज- मध्यप्रदेश

अनुक्रमांक	खसरा नम्बर	उपयोग अधिकार - अर्जन का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	269	0.14
2	267/1	0.21
3	287/1/1	1.48
4	423/4	0.65
5	430	0.05
6	431	0.07
7	432	0.02
8	433	0.03
9	442	0.05
10	454	0.07
11	460	0.03
12	455	0.04
13	463	0.01
14	461	0.04
15	467	0.05
16	468/1-2	0.03
17	459	0.02
18	469/1	0.11
19	499	0.18
20	517	0.06
21	510	0.48
22	503	0.01
23	514	0.08
24	524	0.12
25	511	0.04
26	1078	0.04
27	1073/4	0.02
28	1074	0.03
29	1073/1	0.13
30	1058	0.02
31	1071	0.09
32	1068	0.05
33	1067	0.07
34	1064	0.08
35	1065	0.04
36	1066	0.13
37	1162	0.16
38	1161/1	0.14

ग्राम - दोत्रया, तहसील - बदनावर, जिला - थार, राज्य - म.प्र.

अनुक्रमांक	खसरा सं.	क्षेत्रफल हेक्टर में
39	1169	0.12
40	1170	0.02
41	1172	0.02
42	1185	0.07
43	1184	0.09
44	1181	0.07
45	1179	0.03
46	1176	0.07
47	1216	0.22
48	1218	0.07
49	1217	0.38
50	1232	0.15
51	1233	0.47
52	1234	0.31
53	1235/1	0.25
54	1235/2	0.29
55	1236	0.01
56	1238	0.01
57	1243	0.03
58	1271/1-2	0.19
59	462	0.01
60	1163	0.01
61	1168	0.01
62	1180	0.02
63	1207	0.01
64	1239	0.13
कुल -		8.13

[फा. सं. एल-14014/19/02-जीपी (भाग-II)]

स्वामी सिंह, निदेशक

**MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS
NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd April, 2002

S.O. 390(E).— Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of natural gas through Dahej - Vemar - Vijaipur pipeline project in the State of Madhya Pradesh, a pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited;

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty-one days from the date on which the copies of the notification issued under sub-section (1) of section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Limited, GAIL Complex, Distt. Guna, Vijaipur - 473 112.

SCHEDULE**H.B.J. Expension Project (Dahej-Vemar-Vijalpur Pipline)**

Village - Multhan Tehsil - Badnawar Distt - Dhar Stae - M.P.

Sr. No.	Servey No.	Area to be acquired for R.O.U. (in Hectare)
1	305	0.03
2	302	0.16
3	301	0.13
4	296	0.03
5	300	0.09
6	299	0.05
7	318	0.05
8	317	0.05
9	315	0.02
10	319	0.23
11	290	0.03
12	289/3	0.06
13	289/5	0.05
14	260/2	0.01
15	260/3	0.04
16	260/4	0.08
17	260/5	0.12
18	288/3	0.02
19	288/8	0.05
20	288/2	0.02
21	288/5	0.05
22	288/4	0.04
23	288/7	0.02
24	288/6	0.08
25	287	0.06
26	284	0.02
27	286	0.14
28	281/1	0.08
29	281/2	0.05
30	559/1	0.31
31	559/2	0.15
32	563/1	0.12
33	562	0.22
34	545/1	0.63
35	569/16	0.05
36	569/24	0.12
37	569/10-11	0.42
38	569/9	0.13
39	569/1	0.98

Village-Multhan Tehsil-Badnawar Distt-Dhar State-M.P.

Sr. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. (In Hectare)
40	1287/1/1	0.22
41	1287/2	0.22
42	1287/4	0.19
43	1285	0.35
44	1281	0.08
45	1280	0.09
46	1278/1	0.39
47	1061/1	0.03
48	1057	0.09
49	1058	0.04
50	1055	0.08
51	1053	0.07
52	1054	0.01
53	1051	0.07
54	1050	0.02
55	1037	0.09
56	1046	0.02
57	1039	0.07
58	1023/1	0.10,
59	1019	0.03
60	1024	0.03
61	1025	0.05
62	1038	0.03
63	1014	0.03
64	1015	0.05
65	1016	0.03
66	1017	0.01
67	982/1	0.25
68	904/1	0.01
69	904/2	0.03
70	903/3	0.01
71	898	0.03
72	2321/1	0.02
73	2344	0.01
74	2343	0.17
75	2342	0.02
76	2341	0.01
77	285	0.04
78	567	0.08
79	1022	0.04
80	1023/1-2	0.10,
81	1282	0.04
82	2449	0.01
Total -		8.35

Village-Tilgara Tehsil-Badnawar Distt-Dhar State-M.P.

Sr. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. (In Hectare)
1	3191	0.12
2	3190	0.03
3	3192/1/2.	0.23
4	3192/2	0.10,
5	3193/1	0.01
6	3193/2	0.19
7	3194/1	0.18
8	3194/1/2.	0.18
9	3197/2	0.04
10	3199/1/2.	0.04
11	3199/1/1.	0.15
12	3200	0.04
13	3201	0.20,
14	3202	0.01
15	3179/1	0.11
16	1185	0.19
17	1186	0.12
18	1190	0.24
19	1189	0.13
20	3151	0.13
21	3172	0.10,
22	3171	0.21
23	3124	0.08
24	3126	0.05
25	3129	0.11
26	3127	0.09
27	3116/1-2,	0.11
28	3115/1-3,	0.03
29	3114/1-3,	0.04
30	3072	0.05
31	3039	0.06
32	3040	0.08
33	3041	0.06
34	3042	0.09
35	3045	0.04
36	3048	0.06
37	3047	0.11
38	3233/3047	0.08
39	3049	0.04

Village-Tilgara Tehsil-Badnawar Distt-Dhar State-M.P.

Sr. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. (In Hectare)
40	3030	0.06
41	3028	0.15
42	3034	0.15
43	3021/1	0.11
44	3021/2	0.12
45	3023/1	0.07
46	3023/2	0.07
47	3024	0.05
48	3192/1/1,	0.25
49	3199/2	0.05
50	3152/1	0.11
51	3050	0.01
Total -		4.73

Village - Sandala Tehsil - Badnawar Distt - Dhar State - M.P.

Sr. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. (In Hectare)
1	92/1	0.84
2	93/1-2	0.01
3	107	0.01
4	126/1	0.45
5	91/1/1	0.19
6	91/1/2	0.29
7	91/1/3	0.81
8	241/1	0.28
9	595/1	0.24
10	591/1	0.33
11	589/2	0.06
12	590	0.11
13	584	0.14
14	585	0.20
15	559/1/1	0.31
16	575/1-2	0.14
17	574/1-2	0.11
18	573	0.20
19	572	0.03
20	571	0.29
21	570	0.26
22	569	0.05
23	568/1-3	0.12
24	566/1-3	0.07
25	709/1/1	0.35
26	556/1	0.41
27	751/1-2	0.05
28	798/1	0.04
29	770	0.09
30	769	0.10
31	776	0.07
32	777	0.05
33	780	0.32
34	961	0.01
35	949	0.03
36	960	0.05
37	959	0.05
38	962	0.08
39	956/1	0.08

Village-Sandala Tehsil-Badnawar Distt-Dhar State-M.P.

Sr. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. (in Hectare)
40	983	0.08
41	981/2	0.02
42	982	0.00
43	999	0.04
44	984	0.10,
45	986	0.03
46	995	0.04
47	994/1	0.10,
48	1040	0.12
49	1036/2	0.09
50	1047/1	0.13
51	1047/2	0.14
52	1056/1-2	0.02
53	1058/1-2	0.07
54	1057/1-2	0.15
55	1064/1	0.12
56	1064/2	0.06
57	1145	0.14
58	1146	0.05
59	1144/1	0.08
60	1144/2	0.02
61	1148	0.07
62	1153	0.08
63	1151/2	0.29
64	1303/1-2	0.14
65	1037	0.01
66	1038	0.01
67	1039	0.01
68	985	0.01
69	1041/1	0.01
70	1059	0.01
71	1048	0.01
Total -		9.63

Village-Titipada Tehsil-Badnawar Distt-Dhar State-M.P.

Sr. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. (in Hectare)
1	258	0.16
2	248/1	0.49
3	248/2	0.01
4	248/3	0.06
5	220	0.02
6	170	0.11
7	174	0.18
8	218	0.09
9	176	0.07
10	178	0.11
11	185	0.23
12	186	0.04
13	187	0.01
14	183	0.02
15	184	0.05
16	145/2	0.10,
17	145/3	0.07
18	144/1-3	0.09
19	140/1/1]	0.09
	140/2/2]	
20	140/2	0.14
21	140/3	0.02
22	141/1	0.03
23	135	0.02
24	302	0.06
25	303	0.10,
26	299	0.01
27	304/1-2	0.01
28	306/2	0.03
29	305/1	0.03
30	305/2	0.11
31	295/2	0.03
32	285	0.01
33	307	0.05
34	308/1-2	0.02
35	128	0.12
36	125/1	0.07
37	126/1-2	0.02
38	100	0.02
39	27	0.05

Village-Titlipada Tehsil-Badnawar Distt-Dhar State-M.P.

Sr. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. (In Hectare)
40	29/1-5	0.05
41	39	0.06
42	38	0.05
43	37	0.04
44	36	0.04
45	41/1-3	0.05
46	42/1-2	0.02
47	44	0.05
48	45	0.02
49	51	0.13
50	50	0.02
51	79	0.10,
52	80	0.10,
53	81/1-2	0.08
54	81/384	0.02
55	82	0.03
56	87	0.14
57	86	0.08
58	91	0.05
59	48	0.17
60	92	0.07
61	96	0.01
62	93	0.03
63	94	0.28
64	95	0.08
Total -		4.72

Village-Bakhatpura Tehsil-Badnawar Distt-Dhar State-M.P.

Sr. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. (In Hectare)
1	72	0.01
2	68	0.01
3	69	0.13
4	61/2	0.11
5	61/1	0.13
6	56	0.24
7	57	0.01
8	48/1-9	0.35
9	237/1	0.16
10	239	0.14
11	240	0.06
12	241	0.01
13	246	0.29
14	247	0.04
15	245	0.01
16	248	0.06
17	249	0.10,
18	251	0.04
19	293/1/2	0.03
20	293/1/1	0.04
21	291	0.12
22	292	0.06
23	294	0.06
24	477/1-2	0.13
25	476	0.04
26	475	0.21
27	472	0.13
28	484	0.18
29	485	0.05
30	483	0.02
31	491	0.03
32	490	0.29
33	492/1-3	0.19
34	399/2	0.01
35	505/1-2	0.05
36	506	0.04
37	469	0.07
38	401	0.09
39	402/1-2	0.30,

Village-Bakhatpura Tehsil-Badnawar Distt-Dhar State-M.P.

Sr. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. (in Hectare)
40	408/2	0.10,
41	467/1	0.12
42	465	0.11
43	464/1	0.04
44	75/2	0.10,
Total -		4.51

Village - Dautrya Tehsil - Badnawar Distt - Dhar State - M.P.

Sr. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. (in Hectare)
1	269	0.14
2	267/1	0.21
3	287/1/1	1.48
4	423/4	0.65
5	430	0.05
6	431	0.07
7	432	0.02
8	433	0.03
9	442	0.05
10	454	0.07
11	460	0.03
12	455	0.04
13	463	0.01
14	461	0.04
15	467	0.05
16	468/1-2	0.03
17	459	0.02
18	469/1	0.11
19	499	0.18
20	517	0.06
21	510	0.48
22	503	0.01
23	514	0.08
24	524	0.12
25	511	0.04
26	1078	0.04
27	1073/4	0.02
28	1074	0.03
29	1073/1	0.13
30	1058	0.02
31	1071	0.09
32	1068	0.05
33	1067	0.07
34	1064	0.08
35	1065	0.04
36	1066	0.13
37	1162	0.16
38	1161/1	0.14
39	1169	0.12
40	1170	0.02
41	1172	0.02

Village-Dautrya Tehsil-Badnawar Distt-Dhar State-M.P.

Sr. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. (in Hectare)
42	1185	0.07
43	1184	0.09
44	1181	0.07
45	1179	0.03
46	1176	0.07
47	1216	0.22
48	1218	0.07
49	1217	0.38
50	1232	0.15
51	1233	0.47
52	1234	0.31
53	1235/1	0.25
54	1235/2	0.29
55	1236	0.01
56	1238	0.01
57	1243	0.03
58	1271/1-2	0.19
59	462	0.01
60	1163	0.01
61	1168	0.01
62	1180	0.02
63	1207	0.01
64	1239	0.13
Total -		8.13

[F. No. L-14014/19/02-GP (Part-II)]
SWAMI SINGH, Director